



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 540]

नई दिल्ली, बुध्दतिवार, दिसम्बर 3, 1981/अग्राहायण 12, 1903

No. 540] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 3, 1981/AGRAHAYANA 12, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

ईस्पात और खान संज्ञालय

(खान विभाग)

अधिसूचनाएँ

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 1981

अनुसूची

भा० मा० सं० विधि

बिक्री मूल्य
(रुपए प्रति टन)

का० प्र० 881(अ) :—आवश्यक अस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 की उपधारा (1) के साथ पठित उक्त धारा की उपधारा (2) के खण्ड (एफ) तथा एल्युमिनियम (नियंत्रण) अधिनियम, 1970 के खण्ड 4-सी के अनुसूचन में तथा भारत सरकार, ईस्पात और खान संज्ञालय (खान विभाग) की दिनांक 27 मार्च, 1981 की अधिसूचना के का० मा० संख्या 230(ई) के अधिनियम में जारी दिनांक 15 जुलाई, 1975 के अधिनियम संख्या 357 (ई) के अन्तर्गत सप्लाई के लिए अपेक्षित एल्युमिनियम के संबंध में केन्द्र सरकार एतद्वारा एल्युमिनियम (नियंत्रण) अधिनियम, 1970 की धारा 4 की उपधारा (1) के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित पिंड, बिलेट, बायर बार और बायर बार के रूप में विदेशी एल्युमिनियम के बिक्री मूल्य नियत करती है :—

भा० मा० सं० विधि	बिक्री मूल्य (रुपए प्रति टन)
1. विधि भा० मा० 4026—1969 के अनुसूचन पिंड	15,411
2. विधि भा० मा० 2590—1964 के अनुसूचन पिंड]	15,311
3. विधि भा० मा० 4026—1969 के अनुसूचन [बायर बार तथा बिलेट	15,611
4. विधि भा० मा० 5484—1969 के अनुसूचन बायर बार	15,860

[सं० 10(15)/81 धातु—I(i)]

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(Department of Mines)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 3rd December, 1981

S.O. 881(E).—In respect of Aluminium required to be supplied in terms of Order No. 357(E), dated 15th July, 1975 issued in pursuance of sub-section (1) of section 3 read with clause (f) of sub-section (2) of the said section of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) and clause 4C of the Aluminium (Control) Order, 1970 and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Steel and Mines (Department of Mines) No. S. O. 230(E), dated the 27th March, 1981, the Central Government hereby fixes under the first proviso to sub-clause (1) of clause 4 of the Aluminium (Control) Order, 1970, the sale price of such indigenous aluminium sold as ingots, billets, wire bars and wire rods as specified in the Schedule below :—

SCHEDULE

ISI Specification	Sale price (Rs. per tonne)
1. Ingots conforming to specification : IS : 4026—1969	15,411
2. Ingots conforming to specification : IS : 2590—1964	15,311
3. Wire bar and billets conforming to specification : IS : 4026—1969	15,611
4. Wire rods conforming to specification : IS : 5484—1969	15,850

[N. 10(15)/81-Met. I(i)]

का० भा० 882(अ) :—एल्युमिनियम (नियंत्रण) आदेश, 1970 की धारा 4 की उपधारा (1) के अनुसरण में तथा भारत सरकार, इस्पात और खान मंत्रालय (खान विभाग) की दिनांक 27-3-1981 की अधिसूचना के का० भा० संख्या 231(ई) के अधिक्रमण में, केन्द्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित वेसी एल्युमिनियम पिण्ड और वेसी तार छड़ों के बिक्री मूल्य निश्चित करते हैं :—

अनुसूची

विवरण	बिक्री मूल्य (रुपए प्रति टन)
एल्युमिनियम पिण्ड	15,311
एल्युमिनियम तार छड़ें	15,850

[सं० 10(15)/81-धातु-I(ii)]

S.O. 882(E).—In pursuance of sub-clause (1) of clause 4 of the Aluminium (Control) Order, 1970 and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Steel and Mines (Department of Mines) No. S. O. 231 (E), dated 27th March, 1981, the Central Government hereby fixes sale price of indigenous aluminium ingot and indigenous wire rod as specified in the Schedule below :—

SCHEDULE

Description	Sale Price (Rs. per tonne)
Aluminium ingots	15,311
Aluminium wire rods	15,850

[No. 10(15)/81-Met. I(ii)]

का० भा० 883(अ) :—एल्युमिनियम (नियंत्रण) आदेश, 1970 की धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसरण में तथा भारत सरकार, इस्पात और खान मंत्रालय (खान विभाग) की दिनांक 27 मार्च, 1981 की अधिसूचना के का० भा० संख्या 232(ई) के अधिक्रमण में केन्द्र सरकार, एतद्वारा इस अधिसूचना के साथ उपाबद्ध अनुसूची में उल्लिखित आयातित एल्युमिनियम का बिक्री मूल्य नियत करते हैं :—

अनुसूची

भा० मा० सं० विशिष्टि	बिक्री मूल्य (रुपए प्रति टन)
1. विशिष्टि भा० मा० 4026—1969 के अनुरूप पिण्ड	18,801
2. विशिष्टि भा० मा० 2590—1964 के अनुरूप पिण्ड	18,679
3. विशिष्टि भा० मा० 5484—1969 के अनुरूप तार छड़ें।	19,511

[संख्या 10(15)/81-धातु-I(iii)]

एल० घोष, निदेशक

S.O. 883(E).—In pursuance of sub-clause (2) of clause 4 of the Aluminium (Control) Order, 1970, and in supersession of the Notification of the Government of India in the Ministry of Steel and Mines (Department of Mines) No. S. O. 232(E), dated 27th March, 1981, the Central Government hereby fixes the sale price of imported aluminium as specified in the Schedule appended to this notification :

SCHEDULE

ISI Specification	Sale price (in Rupees per tonne)
1. Ingots conforming to Specification : IS : 4026—1969	18,801
2. Ingots conforming to Specification : IS 2590—1964	18,679
3. Wire rods conforming to Specification : IS : 5484—1969	19,511

[No. 10(15)/81-Met I(ii)]

H. GHOSH, Director